



# Ahluwalia Contracts (India) Limited

ENGINEERING ♦ DESIGNING ♦ CONSTRUCTION

Date: 02/11/2018

To,  
Asst. General Manager  
(Corporate Services)  
BSE Limited.  
25th Floor, P.J.Towers  
Dalal Street, Mumbai - 400001

Asst. Vice President - Listing,  
National Stock Exchange of India Ltd.  
5th Floor, Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex ,  
Bandra (East) Mumbai- 400051

Sub.: Copy of Newspaper Advertisement for Board Meeting Notice

BSE Scrip Code: 532811      NSE Symbol: AHLUCONT

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement Published on 02-11-2018 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) for Board of Directors Meeting of the Company to be held on Wednesday, 14th day of November 2018 at Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 at 4.00 p.m. to consider, approve, inter-alia and take on record, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and six months ended 30th, September 2018 and other agenda items, if any.

The information is also available on the website of the Company viz. [www.acilnet.com](http://www.acilnet.com) and the website of the Stock Exchange, where the Company's shares are listed viz. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Ltd ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

You are requested to take the same on record and acknowledge the receipt.

Regards,  
Yours faithfully,  
For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

(Vipin Kumar Tiwari)  
GM (Corporate) & Company Secretary  
Copy to:



To,  
The Manager (Listing), Code : 10011134  
Calcutta Stock Exchange Ltd ,  
7, Lyons Range,  
Kolkata – 700001,  
Ph.: 033-22104470-4477

Registered & Corporate Office : A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Phone: 011-49410500, 502, 517, & 599, Fax : 011-49410553 E-mail: [mail@acilnet.com](mailto:mail@acilnet.com) Website: [www.acilnet.com](http://www.acilnet.com)

(Corporate Identification Number : L45101DL1979PLC009654)



**SBEC SUGAR LIMITED**  
CIN: L15421UP1991PLC019168  
Regd. Office: Village Layan Malakpur,  
Teh: Baraut Baghat P.U.P.  
Email: investors@sbecsugar.com  
Website: www.sbecsugar.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 13th November, 2018 inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter/Half Year ended on 30th September, 2018. The information contained in this notice is also available on the website of the company i.e. (www.sbecsugar.com) and the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com).

By Order of the Board  
For SBEC Sugar Limited  
Place: New Delhi  
Dated: 01.11.2018  
Sd/-  
Shobit Nehra  
Company Secretary &  
Compliance Officer



**AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED**

Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I,  
New Delhi - 110020  
(Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)  
Website: - www.aclinet.com, E-mail: - cs.corpoffice@aclinet.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other application regulations of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th day of November, 2018 at Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 at 4.00 p.m. to consider, approve, inter-alia and take on record, the un-Audited Financial Results (Standalone) with limited review by the Statutory Auditor of the Company for the quarter and six months ended 30th September 2018 and other agenda items, if any.

\*As per Code of Conduct of the Company for Prevention of Insider Trading in the securities of the Company, the Trading Window shall remain closed for all the Directors/ Officers/ Designated Employees / specified persons of the Company from Tuesday, 6th November, 2018 to till 48 hours after the announcement of financial results to the Stock Exchanges for the quarter (Q2) ended 30-09-2018.

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd  
Sd/-  
Vipin Kumar Tiwari  
Place: New Delhi  
Date: 01.11.2018  
GM (Corporate) & Company Secretary



**HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED**

Regd. Off: D-16, Ground Floor,  
Udyog Nagar, Nanjot, Delhi-110041  
CIN: L74999DL1993PLC056702  
Contact No.: +91-9899425575  
Email: supersecurities1993@gmail.com,  
info\_hindsecurities@yahoo.in  
Website: www.supersecurities.in

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Tuesday, 13th November, 2018 at 02.00 p.m. at the registered office of the company at D - 16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nanjot, Delhi - 110041 to consider, approve and take on record, inter-alia the unaudited financial results of the Company for the quarter and half-year ended September 30, 2018.

The information is also available on the company's website at www.supersecurities.in and on the recognized stock exchange www.bseindia.com.  
For Hind Securities & Credits Limited  
Sd/-  
Jagdish Rai Bansal  
Managing Director  
Place : Delhi  
Date : 01.11.2018  
DIN:00673384

**PREM SOMANI FINANCIAL SERVICES LIMITED**

Regd. Off: 42, Jai Jawan Colony, Scheme No. 3 Durgapura, Jaipur-302018, (Raj.)  
Contact No. 9829051268, CIN: L67120RJ1991PLC006220  
Website: www.psfsc.co.in Email Id:limitedpsfs@gmail.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 5th November, 2018 at 12.30 P.M. at the registered office of the Company at 42, Jai Jawan Colony, Scheme No. 3 Durgapura, Jaipur-302018 (Raj.), inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial results of the Company for the quarter/half year ended on 30th September, 2018 and Statement of Asset and Liabilities as on 30th September, 2018.

This Intimation is also available on Company's website at www.psfsc.co.in and on Stock Exchange's website at www.bseindia.com.  
By the order of the Board  
Sd/-  
Nawal Kumar Somani (Managing Director)  
Date: 01.11.2018  
Place : Jaipur  
DIN: 08094850

**HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED**

Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar - 125005 (Haryana)  
Email: info@hisarmetal.com; Website: www.hisarmetal.com  
Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738, Fax: (011) 43851119  
CIN: L74899HR1990PLC030937

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, November 14, 2018 inter-alia, to consider and approve the un-audited financial results for the quarter and half year ended on September 30, 2018.

The said information is also available on the Company's website at www.hisarmetal.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.  
For Hisar Metal Industries Limited  
Sd/-  
(Vishesh Kumar Chugh)  
Company Secretary  
Place: Hisar (Haryana)  
Date: November 01, 2018

**INDIAN SUCROSE LIMITED**

CIN: L15424PB1990PLC010903  
Registered Office: G.T. Road, Mukerian,  
Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211  
Phone: +91-9115110651/52/53  
Website: www.muksug.com,  
Email: yaducare@gmail.com,  
isl.investor@yaducorporation.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29(1) (a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations 2015, ("LODR Regulations") Notice is hereby given that the meeting of board of Directors of the Company, will be held on Tuesday, 13th day of November, 2018 at 3.00 PM inter-alia to consider and approve, the Un-audited, Quarterly Financial results for the Quarter ended on 30th September, 2018.

By Order of the Board of Director  
For Indian Sucrose Limited  
Sd/-  
Anamika Raju  
Place: New Delhi  
Date: 01.11.2018  
(Company Secretary)

**International Data Management Limited**

CIN: L72300DL1977PLC008782  
Regd. Off. : 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi -110019  
Website: www.idmlimited.in

**Board Meeting Notice**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, the 12th day of November, 2018 at 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 in afternoon to take on record, inter alia, the Un-Audited financial results of the Company for the Quarter and Half-Year ended September 30, 2018.

Pursuant to Schedule B of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Company has decided to close its trading window under the "Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading" from November 2, 2018 to November 14, 2018 (both days inclusive).  
For International Data Management Limited  
Sd/-  
Jasbir Singh Marjara  
Place : New Delhi

**JINDAL CAPITAL LTD.**

Regd Office: 79-A Kamla Nagar  
Delhi-110007  
CIN: L74899DL1994PLC059720  
Website: www.jindalcapital.in  
Email: investor@jindalcapital.in

Regd Avenue  
CIN  
E-Mail  
Website  
Tel. I  
Notice I  
Regula  
Regulat  
Director  
held on  
11nd Flo  
West Pu  
inter-ali  
record t  
the Cor  
Septemr  
For fut  
website  
exchange  
Place: D  
Date: 02



Whereas the Authorised Officer of Enforcement of Security Interest Demand Notices under section successor(s) and assign(s) of the successor(s) and assign(s) of the outstanding amounts as mentioned. However, the Borrower / Mortgagor(s) (since deceased), as has taken over possession and co outstanding amounts, in exercise of The Authorised Officer issued not assign(s) of the respective Borrow entire outstanding dues within 30 mentioned in Rule 8 (5) of the Sect The Borrower / Mortgagor(s), / Mortgagor(s) (since deceased), as (C) would be sold on "as is where and as per the procedure and sub

(A)	
Names of The Borrower / Mortgagor(s), / legal heirs, legal representatives (whether known or unknown), successor(s) and assign(s) of the respective Borrower(s) / Mortgagor(s) (since deceased)	O rec
1) Borrowers / Mortgagors: MR MANISH DUBEY (Loan A/c No: 604469753)	R Two Th
2) Borrowers / Mortgagors: MR DINESH ARORA & MR P K ARORA (Loan A/c No: 600447193)	F N Th
3) Legal Heirs, Legal Representatives Of Deceased Borrower:- MR. CHHATAR PAL SINGH AND MRS. SUGANDHA SINHA (FATHER AND WIFE RESPECTIVELY OF MR RAJEEV KUMAR (BORROWER) (Since Deceased)) (Loan A/c No: 588070078)	Rs. Lak Six O
4) Borrowers / Mortgagors: MR ARUN SHARMA & MRS ANITA SHARMA (Loan A/c No: 588720270)	R Elk O



(सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसार)  
 एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष  
 सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के उप-नियम (4) के मादले में और  
 हनुमन्तिस साईंस ऑफ स्पॉट एलएलपी ("ए एलएलपी") जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 4, तीसरा तल, टॉवर-1, कोहिनूर एनोबले, सैद्धाजिब, नई दिल्ली, पंजीयक परिचय 110030, भारत में है, के मादले में  
 ..... आवेदक  
 आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एलएलपी सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के साथ पठित सशित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17(4) के अंतर्गत, तथा 24 अक्टूबर, 2018 को गुनिट 303, तीसरा तल, 402, प्रभासमी इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400025 पर प्रातः 11:00 बजे पदनामित साझेदारों की बैठक में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "महाराष्ट्र राज्य" के क्षेत्र अधिकार अंतर्गत कंपनी पंजीयक-मुम्बई में स्थानांतरित करने के लिए एलएलपी के सीमित दायित्व साझेदारी समझौता (एलएलपी समझौता) के पंजीकृत कार्यालय के राज्य में परिवर्तन हेतु कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।  
 कोई भी स्थित धिनका एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपनी आपत्ति या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आग्रह एवं आपत्ति की पुरुषुमि को दशार्त हुए एक सप्ताधतत्र के साथ इसे पंजीकृत डाक द्वारा कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इकतीस) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के उपरोक्त उभित पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजें।  
 कृपे हनुमन्तिस साईंस ऑफ स्पॉट एलएलपी हस्ता/- करिमा बुलानी पदनामित साझेदार दिनांक : 02.11.2018 पदनामित साझेदार स्थान : नई दिल्ली (सीजीआईएन - 07999624)

**श्री अमरनाथ फाइनेन्स लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: 4883-84, द्वितीय मंजिल, मेन रोड कुचा उस्ताद दाग, चांदनी चौक, दिल्ली-110006  
 CIN: L74899DL1985PLC020194  
 Email: anamalth@finance@gmail.com  
 दूरभाष: 011-23953204  
 सूचना  
 सेबी (एलआईओआर) विनियमन 2015, के अनुसरण 47(1)(ए) के अनुसार पंजीकृत सूचना प्रदान की जाती है कि सितम्बर 30, 2018 को समाप्त तिमाही एवं तीमाही के अनअकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सानिवाप, दिनांक 10 नवम्बर, 2018 को आयोजित करने तय की गई है।  
 पुनः कम्पनी के शेयर्स को लेन-देन व्यापार खिडकी नामित कर्मचारियों जो कि निदेशकों एवं अधिकारियों को शामिलकर 05.11.2018 से 12.11.2018 तक (दोनों दिवस समित कर) बंद रहेंगी।  
 कृते अमरनाथ फाइनेन्स लिमिटेड हस्ता/0/ स्थान : दिल्ली (राकेस कपूर) दिनांक : 01.11.2018 (प्रबन्ध निदेशक) उपरोक्त वित्तीय परिणाम बोर्ड की बैठक के परचात निम्न लिंक पर उपलब्ध होंगे: a)http://www.sriamalthfinance.in/ index.php?event=Quarterly%20Results

**MAXPLUS LOGISTICS LIMITED**  
 (Formerly Known as MC-SITICH LIMITED)  
 CIN: L65999DL1985PLC02231  
 Regd. Office : 1, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110065  
 email: sanjeev.chandpra@gmail.com  
 website: www.maxpluslogisticslimited.com  
 Tel. No. : 011-49057869  
**NOTICE**  
 NOTICE is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 13<sup>th</sup> day of November, 2018 to consider, inter alia, discuss and approve the unaudited financial results of the Company along with limited review report presented by the statutory auditor for the

**AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED**  
 Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020  
 (Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)  
 Website: - www.aclinet.com, E-mail: cs.corporate@aclinet.com  
**NOTICE**  
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other application regulations of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th day of November, 2018 at Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 at 4.00 p.m. to consider, approve, inter-alia and take on record, the un-Audited Financial Results (Standalone) with limited review by the Statutory Auditor of the Company for the quarter and six months ended 30th, September 2018 and other agenda items, if any.  
 As per Code of Conduct of the Company for Prevention of Insider Trading in the securities of the Company, the Trading Window shall remain closed for all the Directors/ Officers/ Designated Employees / specified persons of the Company from Tuesday, 6th November, 2018 to till 48 hours after the announcement of financial results to the Stock Exchanges for the quarter (Q2) ended 30-09-2018.  
 For Ahluwalia Contracts (India) Ltd Sd/- Vipin Kumar Tjwari GM (Corporate) & Company Secretary  
 Place: New Delhi Date: 01.11.2018

**फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लि.**  
 रेग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67  
 MH1977PLC019916 वेबसाइट: www.hdfc.com

बोली द्वारा अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवचन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित 'चडीएफसी लि.' के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना (ए) (29 नवंबर) प्रशासक(को), उत्तराधिकारी(रियों) तथा संबंधित ऋणधारकों/ माटीगजरो (अब मृतक) के तथा ऋणधारक(को)/ माटीगजर(रों) (अब मृतक) के एसाईन(नों)/ जैसा की मामला हो, जिनके श के भुगतान का निर्देश दिया था।  
 दिल्लीकारी तथा संबंधित ऋणधारक/ माटीगजर (अब मृतक) के एसाईन, जैसा भी मामला हो, जो कॉलम एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (4) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एचडीएफसी लि. के पास गिरवी रखी गई संबंधित अचल संपत्ति(यों) प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का कब्जा कर ऋणधारक/ माटीगजर/ सांविधिक उत्तराधिकारियों, सांविधिक प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), जो कॉलम(ए) में दर्शाये गया है, को सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर संपूर्ण चकाया राशि के कम्पन्सी भी पद्धति को अपना कर उक्त गिरवी संपत्तियों/ प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए आगे तथा संबंधित ऋणधारक/ माटीगजर (अब मृतक) के एसाईन जैसा भी मामला हो, जिसे कॉलम(ए) परिसंपत्तियों को प्रक्रिया के अनुसार तथा लागू होने वाले नियमों, शर्तों तथा डिस्क्लेमर्स के अधीन "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जाएगी।

दिनांक/ चयन	1 चर्चा मूल्य	(घ) अचल संपत्ति प्रतिभूति परिसंपत्तियों के निरीक्षण की तिथि	(ङ) बोली जमा करने की अंतिम तिथि	(च) बोली वृद्धि राशि (रु)	(छ) नीलामी की तिथि एवं समय
सितम्बर राज नगर तंगान एवं गभग 130 र सत्साईस	14 नव. 18 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप.	3 दिस. 18 5 बजे अप. से पूर्व	रु. 50000/- (रुपए पचास हजार मात्र)	5 दिस. 18 10.30 पूर्वा. से 11.00 बजे पूर्वा.	
N( Eश्रम तल, Rइक्स्टे. 2, bग उसा पर 00 मूल्य: रु. 50000/-)	15 नव. 18 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप.	3 दिस. 18 5 बजे अप. से पूर्व	रु. 20000/- (रुपए बीस हजार मात्र)	5 दिस. 18 12 बजे दोप. से 12.30 अप.	
FU, वैशाली अ मध्य के अर्का परिया ए सत्तरह	16 नव. 18 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप.	3 दिस. 18 5 बजे अप. से पूर्व	रु. 20000/- (रुपए बीस हजार मात्र)	5 दिस. 18 1 बजे अप. से 1.30 अप.	
Pl नं. बी-042, जिला निर्माण, तत मूल्य:	20 नव. 18 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप.	3 दिस. 18 5 बजे अप. से पूर्व	रु. 10000/- (रुपए दस हजार मात्र)	5 दिस. 18 2 बजे अप. से 3 बजे अप.	

क वहन की गई हो, के साथ।  
 बिक्री तिथियों को छोड़कर उक्त अचल संपत्तियों/ प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संदर्भ में अन्य कोई अधिभार नहीं है।

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100